



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 302]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 1980/आषाढ़ 17, 1902

No. 302]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1980/ASADHA 17, 1902

इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिलेखना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1980

क्रा०ख० 511(अ) —भूमिगत रेल (संक्रमण निर्माण) अधिनियम, 1978 के अर्तान सक्षम प्राधिकारी की रपट पर यह केन्द्रीय सरकार इस बात से सतुष्ट है कि नीचे अनुसूची में यथावर्णित भूमि, भवन इत्यादि में उपयोग का अधिकार (अन्तर ग्राउन्ड अधिकार), कलकत्ता नगर के सार्वजनिक व्यवसाय पर कलकत्ता मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित अन्य सकर्मों के निर्माण जैसे एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण कर लिया जाये।

अतः अब भूमिगत रेल (संक्रमण निर्माण) अधिनियम, 1978 के धारा 10 की उप-धारा (1) में प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में यथावर्णित भूमि, भवन इत्यादि में उपयोग का अधिकार (अन्तर ग्राउन्ड अधिकार) एतद्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाता है।

यह घोषणा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को की जाती है।

भूमि, भवन आदि के प्लान का, जिसके लिए उपयोग का अधिकार (अन्तर ग्राउन्ड अधिकार) अधिग्रहित किया गया है, कलकत्ता मेट्रो रेलवे के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

भूमि, भवन आदि जिसमें उपयोग का अधिकार (अन्डर ग्राउन्ड अधिकार), कलकत्ता मेट्रो रेलवे और मेट्रो रेलवे से सम्बन्धित अन्य संकमों के निर्माण के प्रयोजन से अधिग्रहित किया गया है, को बताने वाली अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/5

प्लान का संदर्भ	प्रयोजन जिसके लिए भूमि-भवन आदि में उपयोग का अधिकार (अन्डर ग्राउन्ड अधिकार) अधिग्रहित किया गया है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अधिग्रहित किया गया है, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा रेखा (अन्डर ग्राउन्ड अधिकार)	(अन्डर ग्राउन्ड अधिकार)
सेट	शीट	क्षेत्रफल वर्गमीटर	विवरण
प्लान सं० एम आर सी/डब्ल्यू/सी/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित अन्य संकमों का निर्माण।	46.00 वर्ग मीटर (1.0046 हेक्टेयर)	14/2, भैरव मुखर्जी लेन के उत्तर : 15, भैरव मुखर्जी लेन दक्षिण : उसी परिसर का दक्षिण भाग पूर्व : भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम : 14/3 भैरव मुखर्जी लेन

[फाइल सं० 80/एम टी पी/सी/एल ए/48]

के० बालचन्द्रन, सचिव रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पवन सयुक्त सचिव

### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 1980

**S.O. 511(E).**—Whereas the Central Government on the report of the Competent Authority under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building etc. mentioned in the Schedule below should be acquired for a public purpose namely, for construction of Metro Railway, Calcutta and other works connected therewith at the public expense in the city of Calcutta.

Now therefore, it is hereby declared that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978, the Central Government do hereby acquire the right of user (underground right) in the land, building etc. referred to in the schedule below.

A plan of the land, building etc. in respect of which the right of user (underground right) is acquired, may be inspected in the office of the Competent Authority, Metro Railway, Calcutta.

Schedule showing the land, building etc. in which the right of user (underground right) is acquired for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

### CALCUTTA METROPOLITAN CITY LAND SCHEDULE NUMBER 10/5

Reference to Plan	Purpose for which the right of user (underground right) in the land, building, etc. is acquired	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is acquired (Underground Right)	Underground Right
Set	Sheet	Area in Sq. M.	Boundary of the land
Drp. No. MRC/W/Land/276-79.	Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	46.00 Sqm. (1.0046 Hectares)	Below 14/2, Bhairab Mukherjee Lane.
			North : 15, Bhairab Mukherjee Lane. South: Southern part of the same premises. East : Bhairab Mukherjee Lane. West : 14/3, Bhairab Mukherjee Lane.

No. 80/MTP/C/LA/48]

K. BALACHANDRAN Secretary, Railway Board &

Ex-Officio Joint Secretary to the Government of India